

**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 24 मई, 2018

**संख्या लैज० 18/2018**— दि हरियाणा मैन्डमैन्ट ऑव सिव्इक अमेनिटिज ऐन्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर डिफिशनट म्यूनिसिपल एअरिअज (स्पेशल प्रेविशर्जनस) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 मई, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

**2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15**

**हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2018**

**हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
- (2) यह 21 अप्रैल, 2016, से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 की धारा 4 में,— 2016 का हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 4 का संशोधन।
  - (i) उप—धारा (1) में, “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
  - (ii) उप—धारा (2) में, “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

कुलदीप जैन,  
सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।